

संख्या.19/01/2019-गो-1/1

## कर्मचारी चयन आयोग

कनिष्ठ अभियंता (सिविल, वैद्युत,यांत्रिकी और गुणवत्ता सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2019- अभ्यर्थियों को शॉर्ट-लिस्ट कर दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाने के लिए प्रश्न-पत्र-II के परिणाम की घोषणा ।

\*\*\*\*\*

कनिष्ठ अभियंता (सिविल, वैद्युत,यांत्रिकी और गुणवत्ता सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2019 के प्रश्नपत्र-I का परिणाम दिनांक 01.03.2021 को घोषित किया गया था। उक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र-I के परिणाम के आधार पर, 5,681 अभ्यर्थियों (सिविल: 4750 एवं वैद्युत/ यांत्रिकी:931) ने प्रश्न-पत्र-II में बैठने के लिए अर्हता-प्राप्त की थी।

2. परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-17.3 के अनुसार, प्रश्न-पत्र-II के लिए न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:-

श्रेणी	अंकों का प्रतिशत
अनारक्षित	30%
आ.क.व./ अ.पि.व.	25%
अन्य सभी श्रेणियाँ	20%

3. आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ अंक (प्रश्न-पत्र-I + प्रश्न-पत्र-II) के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का ब्योरा निम्नानुसार है:-

### I. सिविल अभियांत्रिकी:

श्रेणी	कट ऑफ अंक (प्रश्नपत्र-1 + प्रश्नपत्र-2)	उपलब्ध अभ्यर्थी
अजा	235.51753	442
अजजा	243.00962	212
अपिव	265.07317	1078
आकव	270.40837	428

अना.	315.55189	336*
अ.दि.	169.02096	20
श्र.दि.	122.79162	16
<b>योग</b>	----	<b>2532</b>

\*इसके अतिरिक्त, अना. कट-ऑफ पर अर्हक 64 अजा., 32 अजजा., 448 अपिव एवं 193 आकव अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दिखाया गया है।

## II. वैद्युत/ यांत्रिकी अभियांत्रिकी:

श्रेणी	कट ऑफ अंक (प्रश्नपत्र-1 + प्रश्नपत्र-2)	उपलब्ध अभ्यर्थी
अजा	282.92003	54
अजजा	281.13827	28
अपिव	307.83378	162
आकव	311.41869	68
अना.	333.85804	38*
अ.दि.	242.17877	08
श्र.दि.	#	#
<b>योग</b>	----	<b>358</b>

\*इसके अतिरिक्त, अना. कट-ऑफ पर अर्हक 04 अजा., 03 अजजा., 66 अपिव एवं 31 आकव अभ्यर्थियों को उनकी संबंधित श्रेणियों में दिखाया गया है।

# प्रश्न-पत्र-2 में किसी भी अभ्यर्थी ने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं किया है।

3. यहां दी गई सूचियां अनंतिम हैं। जिन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक सूची में दिए गए हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। परिणाम में शामिल सभी अर्हक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना होगा। जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, अंतिम चयन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. दस्तावेज सत्यापन का कार्य संभवतः दिसंबर, 2021 माह के दूसरे पक्ष में किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने वाले अर्हक अभ्यर्थियों का प्रवेश-पत्र, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर दस्तावेज सत्यापन शुरू होने से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र डाउनलोड नहीं कर पा रहे हों, वे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र डाउनलोड सुनिश्चित करने का दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थियों का है।

5. अर्हता प्राप्त तथा गैर-अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के अंक आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 30.11.2021 को प्रदर्शित किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी पंजीकरण संख्या एवं पंजीकृत पासवर्ड का उपयोग करने के पश्चात अभ्यर्थी डैशबोर्ड के परिणाम/अंक लिंक पर क्लिक करके अपने-अपने अंक दिनांक 30.11.2021 से 19.12.2021 तक देख सकते हैं ।

**अवर सचिव(गोपनीय-1/1)**  
**23.11.2021**